



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड-21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2020 ई० (पौष 28, 1941 शक सम्वत्) [संख्या-03

### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	73-103	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	47-63	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	01-03	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	05-09	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## औद्योगिक विकास अनुभाग-1

## कार्यालय ज्ञाप

02 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 2480/VII-A-1/2019/68-रिट/08टीसी-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1758/VII-1/16/68-रिट/08, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 का प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान में राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांटों को अनुज्ञा दिए जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोक-थाम, प्रदेश के जनसाधारण को प्रदूषण मुक्त वातावरण दिए जाने एवं ऐसी इकाइयों को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 को अधिक्रमित करते हुए, निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2019 प्रख्यापित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2019

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2019 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो-

- (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ख) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त अभिप्रेत है;
- (च) "व्यक्ति" से जो भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित है;
- (छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;
- (ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील

पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

- (झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक अभिप्रेत है;
- (ञ) "आबादी" से स्टोन केशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "On site स्थापना" से नदी/गधरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;
- (ठ) "नदी" से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है (Perennial river) तथा जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है (Non-Perennial river) अभिप्रेत है;
- (ड) "नियमावली" से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2019 अभिप्रेत है;
- (ढ) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;
- (ण) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा।

#### अध्याय- I. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट

स्टोन केशर  
प्लांट/स्क्रीनिंग  
प्लांट स्थल  
चयन हेतु  
समिति

1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :-

1. संबंधित जनपद का जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष
2. प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी सदस्य
3. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो सदस्य
4. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि सदस्य
5. भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स सदस्य
6. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी सदस्य सचिव।

उपरोक्तनुसार गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची-1 पर प्रस्तुत की जायेगी।

स्टोन केशर  
प्लांट/स्क्रीनिंग  
प्लांट हेतु  
आवेदन

2. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-2 में वर्णित निम्न अभिलेखों एवं अनुज्ञा शुल्क सहित छः प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा:-

1. आवेदन प्रपत्र।
2. अनुज्ञा शुल्क संयंत्र की क्षमता के अनुसार।
3. आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।

4. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant) द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अधिकृत परामर्शदाता का सूचीबद्धीकरण (Empanelment) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अधिकृत परामर्शदाता द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उन्हें काली सूची (Black list) में डाला जायेगा।
5. आवेदित स्थल का खसरा विवरण।
6. आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट हेतु स्वीकृत अवधि का होना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
8. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का विधिवत रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या विधिक ग्राह्यता वाले मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग की प्रति।
9. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
10. आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
11. आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
12. जी0एस0टी0 नम्बर।
13. आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र।
14. स्क्रीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा। इस हेतु संचालक का स्वयं का खनन पट्टा अथवा/और खनन पट्टाधारक (निजी नाप/राजस्व भूमि/वन निगम/ ग0म0वि0नि0/कु0म0वि0नि0) के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति का निर्धारित प्रपत्र अनसूची-3 के अनुसार पंजीकृत अनुबन्ध न्यूनतम 05 वर्ष की उपखनिज आपूर्ति के आशय का संलग्न होना आवश्यक है। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारकों से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन तथा उक्त प्लान्टों के परिसर में उप खनिज भण्डारण की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा एक साथ प्रदान की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय एवं विकय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ जिला खान अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार/नायब

तहसीलदार व निदेशालय स्तर के उपनिदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी तथा शासन स्तर के अनुसचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17. नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति के लिए वही आवेदनकर्ता पात्र होगा, जिसके पास स्वयं का पट्टा अथवा/और जिसके पक्ष में शासकीय निगमों अथवा व्यक्तिगत पट्टाधारकों से आपूर्ति हेतु मात्रा का विधिवत पंजीकृत अनुबन्ध है एवं प्रस्तावित क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष शेष क्षमता का स्वयं के पक्ष में स्वीकृत पट्टा अनुबन्ध है। इन सभी का पूर्ण विवरण सशपथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लांट  
की स्थापना हेतु  
दूरी के मानक

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के आवेदन हेतु मैदानी क्षेत्रों में क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे:-

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2	नदी के किनारे से	03 किलोमीटर	03 किलोमीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :-

- (1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों की नदी से न्यूनतम दूरी 250 मीटर होगी शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।  
(2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांट से दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।  
(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लांट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लांट  
हेतु न्यूनतम  
क्षेत्रफल

4. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात् आवेदित/प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक संहत खण्ड में हो, का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :-

- (क) स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट की क्षमता - टन प्रति घंटा  
(ख) प्रतिदिन स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि - औसतन 10 घंटा प्रतिदिन  
(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन हेतु कच्चा माल आर0बी0एम0 की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = क x ख टन प्रतिदिन  
(घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन घुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन। वर्षा काल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 x क x ख = टन में।  
(ङ) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात् अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x क x ख (टन में)  
(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊँचाई तक।

(छ) वर्षा अवधि हेतु कच्चा माल (आर0बी0एम0) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= \frac{क \times ख \times 90}{2.2 \times 5}$$

$$(वर्गमीटर में)$$

(1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) वर्षा काल से भिन्न अवधि हेतु कच्चा माल की एक समय में भण्डारण हेतु क्षेत्रफल =

$$\frac{क \times ख \times 90}{2.2 \times 5}$$

$$(वर्गमीटर में)$$

(झ) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु क्षेत्रफल वर्षाकाल एवं वर्षाकाल से भिन्न अवधि हेतु कच्चे माल के क्षेत्रफल का योग (छ+ज) का 25 प्रतिशत होगा।

(ट) कुल क्षेत्रफल = छ+ज+झ वर्गमीटर

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
हेतु आवेदन के  
सम्बन्ध में  
प्रकाशित  
विज्ञापन के कम  
में प्राप्त  
आपत्तियों का  
निराकरण किया  
जाना

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यपक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/वर्ग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। तदुपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
में कच्चे माल/  
तैयार माल का  
भण्डारण एवं  
परिवहन

6. (क) स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रशड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट/क्रेशर प्लान्टमें छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लांट  
अनुज्ञा देने हेतु  
शर्त

(घ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन क्रेशर हेतु एवं 25 पै0 प्रति कुंतल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

(ङ) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांटों द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

7. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लांट/ स्क्रीनिंग प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।

(2) स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएँ।

भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कराया जाना होगा। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(3) (क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  से कम हो।

(ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को ऐसा संयंत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :-

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note -

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व में स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों को भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।

(4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

- (6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
- (7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (9) फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्कबिंग की जाये। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (11) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट संचालन हेतु खनन पट्टाधारक द्वारा आपूर्ति किये गये उपखनिज का निर्धारित प्रपत्र पर मासिक विवरण संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (12) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रतिमाह क्रय किये गये आर०बी०एम० एवं विक्रय किये गये क्रशड मैटेरियल/तैयार माल का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (13) प्रत्येक स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा Tamper Proof इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।
- (14) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।
- (15) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश किया जाना अनिवार्य होगा। प्लान्ट स्वामी की क्रशिंग क्षमता का अक्टूबर से दिसम्बर की प्रथम तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम निरीक्षण, जनवरी से मार्च की द्वितीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल के प्रथम सप्ताह में द्वितीय निरीक्षण, अप्रैल से जून की तृतीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जुलाई के प्रथम सप्ताह में तृतीय निरीक्षण एवं जुलाई से अक्टूबर की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यह निरीक्षण संबंधित खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक अथवा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका क्रेशरवार रिकार्ड खान अधिकारी एवं



संबंधित केशर स्वामी के पास रखा जाना अनिवार्य होगा।

यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा किसी तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो आगामी तिमाही में प्लान्ट स्वामी द्वारा इस प्रकार क्रशिंग की जानी होगी कि दोनों तिमाहियों का औसत कम से कम 80 प्रतिशत हो जाय। यदि लगातार दो तिमाहियों में कम से कम 80 प्रतिशत क्रशिंग क्षमता का उपयोग प्लान्ट स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्लान्ट स्वामी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर ई-रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा। यदि प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी। केशर स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील शासन में ही की जा सकती है। शासन द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति उद्घाटित होने की दशा में छूट दी जा सकेगी।

- (16) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।

स्टोन केशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
अनुज्ञा की  
स्वीकृति

8. (1) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुसूची-2 में वर्णित अभिलेखों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दस वर्ष की अवधि हेतु स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।

- (2) शासन द्वारा निजी नाम भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन केशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्ट  
क्षमता का  
निर्धारण

9. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ-पत्र सहित घोषित करेगा। उक्तानुसार घोषित क्षमता के परीक्षण/प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के खान अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत वितरण निगम के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रचालन/संचालन क्षमता एवं तदनुसार भण्डारण क्षमता निर्धारित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा संस्तुत क्षमता अनुमन्य होगी तथा प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी यह समिति निर्धारित करेगी।

प्रदेश में इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली क्रशिंग क्षमता प्रति घंटा एवं प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा के 10 प्रतिशत मामलों का सत्यापन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा Random आधार पर प्रति वर्ष कराया जायेगा।

पूर्व से  
स्थापित/  
संचालित स्टोन  
क्रेशर/  
स्क्रीनिंग प्लान्टों  
की क्षमता टन  
प्रति घन्टा के  
अनुसार घोषित  
करना तथा  
प्लांट की क्षमता  
का  
विनियमितीकरण

10. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के बाद दो माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।  
घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा।  
विनियमितीकरण शुल्क नीति के अध्याय-II में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 1 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।  
नीति की घोषणा के दो माह बाद ई-प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

अध्याय-II- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु अनुज्ञा शुल्क :-

क्र० सं०	संयंत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	₹ 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घंटा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) ₹ 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) ₹ 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) ₹ 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	

4	हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	₹ 25000/-
---	--------------------------------------	-----------

नोट:-1. नये स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/संचालन की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु उपरोक्त तालिका में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अनुज्ञा शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।

### अध्याय-III- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

स्टोन  
क्रेशर/स्क्रीनिंग  
प्लान्ट का  
नवीनीकरण

- (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-4 में वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क जो अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जिसका 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण ओदश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जाना होगा, तीन प्रतियों में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
- (2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।
- (3) पूर्व नीति द्वारा स्वीकृत/स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण तभी किया जायेगा जब संबंधित प्लान्ट इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित हों।

पूर्व नीति से  
स्थापित स्टोन  
क्रेशर/स्क्रीनिंग  
प्लांट का  
संचालन  
अनुज्ञा को  
रद्द/निरस्त  
किया जाना

2. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन हेतु स्वीकृत अनुज्ञा के नवीनीकरण के समय अपने संयंत्रों को इस नीति में निर्धारित समस्त मानकों/प्रावधानों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
3. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।  
(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

#### अध्याय-IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
2. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
3. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट तथा उक्त प्लांटों के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।
4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
5. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक/परियोजना प्रबंधक/ कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्त्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
7. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।  
प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
8. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
9. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञापित प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्त्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

11. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
12. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क़रड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर माहवार संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
13. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को क़रड मैटेरियल की मात्रा पर ₹ 1 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
14. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।
15. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
16. पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

#### अध्याय-४. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-8 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय किये गये खनिज का लेखा-जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

हट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-11 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

- (ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।
- (ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्टर या उनके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- (घ) यदि हॉट मिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में ₹ 5,000/- की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा।
2. हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

प्लान्ट से धूल  
के कणों के  
उत्सर्जन को  
रोकने की विधि

#### अध्याय-VI. पत्थराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

1. पत्थराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-7 में आवेदन शुल्क सहित नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। पत्थराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. पत्थराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या-1 में वर्णित समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थराईजर प्लांट की स्थापना हेतु इस नीति में पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के निर्धारित दूरी के मानक लागू होंगे तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 एकड़ होगा।
4. पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पत्थराईजर प्लांट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. पत्थराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन की स्वीकृति तथा परिसर में उपखनिज (सोपस्टोन) के कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति

के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

6. पल्वराईजर प्लॉन्ट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लॉन्ट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क ₹ 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लॉन्ट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

7. प्लॉन्ट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to establish और consent to operate की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

अध्याय-VII. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट/हाट मिक्स प्लॉन्ट/आर0एम0सी0 प्लॉन्ट का नाम व प्लॉन्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण:

1. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट/हाट मिक्स प्लॉन्ट/आर0एम0सी0 प्लॉन्ट का नाम व प्लॉन्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लॉन्ट का नाम/प्लॉन्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिए सम्बन्धित प्लॉन्टों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

- |                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम परिवर्तन-                 | ₹ 2.00 लाख। |
| (2) स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-        | ₹ 1.00 लाख। |
| (3) हाटमिक्स प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-          | ₹ 50,000/-  |
| (4) आर0एम0सी0 का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-                 | ₹ 50,000/-  |
| (5) मोबाइल स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-       | ₹ 50,000/-  |
| (6) मोबाइल स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन- | ₹ 25,000/-  |
| (7) पल्वराईजर प्लॉन्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-         | ₹ 50,000/-  |

अध्याय-VIII. पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण:

- (1) पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट/पल्वराईजर प्लॉन्ट जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लॉन्ट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लॉन्ट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लॉन्ट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लॉन्ट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

#### अध्याय-IX.

- नीति का स्पष्टीकरण (1) इस नीति में किए गए प्राविधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

(Clarification)

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापना सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप**अनुसूची-1 (अध्याय-1, बिन्दु सं0-1)**

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम .....
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम) .....
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल का विवरण:- .....।  
 (क) ग्राम .....  
 (ख) तहसील .....  
 (ग) जिला .....  
 (घ) खसरा सं0 व क्षेत्रफल .....
4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा).....।
5. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक.....।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.....।
7. राजस्व विभाग की आख्या:-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:-

क्र0 सं0	ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9



(ख) भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिए गए किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जाँच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी:-

(ग) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-

(घ) प्रस्तावित संयंत्र से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1.	सरकारी वन			
2.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river), नाला, गदेरा के किनारे से			
3.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

(ङ) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(च) आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(छ) प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

8. वन विभाग की आख्या:-

(क) प्रस्तावित प्लॉन्ट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:-

(ख) प्रस्तावित प्लॉन्ट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:-

(ग) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:-

(घ) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(ङ) प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

9. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

(क)

क्र0 सं0	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river), नाला, गदेरा के किनारे से			
2.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
3.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि			
4.	आबादी से दूरी			

(ख) प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

(ग) प्लॉन्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगाई जाने वाली शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(घ) प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

10. भू वैज्ञानिक की आख्या:-

(क) प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना का विवरण .....

(ख) प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अक्षांश व देशान्तर .....

(ग) प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

## 11. जिला खान अधिकारी की आख्या:-

1. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की आवेदित क्षमता.....टन प्रति घण्टा।
2. (i) प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय-1 के बिन्दु सं0 4 के अनुकूल है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी.....
- (ii) यदि प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय-1 के बिन्दु सं0 4 के अनुकूल नहीं है तो क्षेत्रफल के अनुसार प्लॉन्ट की क्षमता .....टन प्रति घण्टा।
3. (क) प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अनुबन्ध/विलेख सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं, का पूर्ण विवरण.....
- (ख) अनुबन्ध/विलेख में अंकित खनिज की वार्षिक मात्रा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के अनुरूप होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी .....
4. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टों की संख्या व वार्षिक खनिज निकासी मात्रा का विवरण.....
5. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की संख्या व वार्षिक क्षमता का विवरण.....
6. प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की क्षमता (एक समय पर).....टन।
7. (क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
- (ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था की कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुई तो उस पर जन सुनवाई की गई या नहीं, यदि की गई तो जन सुनवाई का दिनांक व लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी.....
8. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है, तो पूर्ण विवरण.....
9. (क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:-
- (ख) भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण.....
10. प्रस्तावित प्लॉन्ट स्थल, यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
11. प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉन्ट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)  
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण  
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सदस्य।

(जिला भूवैज्ञानिक)  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
सदस्य।

(उपजिलाधिकारी)  
राजस्व विभाग,  
सदस्य।

(जिला खान अधिकारी)  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
सदस्य सचिव।

(प्रभागीय वनाधिकारी)  
वन विभाग,  
सदस्य।

(जिलाधिकारी)  
अध्यक्ष।

(गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे)।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

**अनुसूची-2 (अध्याय-1, बिन्दु सं0-2)**

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
जनपद.....।

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम.....

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम).....

पता .....

मोबाइल नं0.....

ई-मेल आईडी0.....

3. आवेदित स्थल का विवरण:-

जनपद .....

तहसील .....

ग्राम .....

खसरा संख्या.....

क्षेत्रफल .....

4. प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घण्टा).....।

5. प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।

6. अनुज्ञा शुल्क का विवरण:-चालान सं0.....घनराशि.....दिनांक.....।

7. अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।

8. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता.....।

9. फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।

10. आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

11. यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
12. आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
13. आवेदित क्षेत्र का साइट प्लॉन की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
14. प्लान्ट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति..... ।
15. आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
16. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..... ।
17. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
18. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
19. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
20. आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..... ।
21. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
22. प्लान्ट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति..... ।
23. प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) की आपूर्ति के स्रोत के सम्बन्ध में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक व पट्टाधारक के मध्य अनुबन्ध पत्र का विवरण

अनुसूची-3 [अध्याय-1, बिन्दु सं0-02(15)]

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....को स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य किया जा रहा है:-

1. यदि खनन पट्टाधारक एक व्यक्ति विशेष हो:-व्यक्ति का नाम.....  
पता.....व्यवसाय.....(जिसे आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)
2. यदि खनन पट्टा एक से अधिक व्यक्ति के नाम हो:-व्यक्ति का नाम.....  
पता.....व्यवसाय.....तथा.....व्यक्ति का नाम.....व्यवसाय.....(जिन्हें आगे "पट्टाधारक" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके अपने-अपने दायक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।
3. यदि पट्टाधारक निबद्ध फर्म हो:-(फर्म के भागीदार का नाम और पता) आत्मज.....निवासी....., आत्मज निवासी.....आदि, जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932(एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म.....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय.....जिला में पंजीकृत है, (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायक, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)
4. यदि पट्टाधारक निबद्ध कम्पनी हो:-कम्पनी का नाम.....जो (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय में पंजीकरण किया गया है। जिसको आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे।
5. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एक व्यक्ति विशेष हो:-व्यक्ति का नाम.....  
पता....., व्यवसाय.....(जिसे आगे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।
6. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्वामित्व एक से अधिक का हो:-व्यक्ति का नाम.....  
पता....., व्यवसाय.....तथा.....व्यक्ति का नाम.....व्यवसाय.....आदि (जिन्हें आगे "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके अपने-अपने दायक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।
7. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध या फर्म हो:-(भागीदार का नाम और पता) आत्मज.....  
निवासी.....आत्मज निवासी.....जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म.....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय.....जिला में पंजीकृत है (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायक, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।

8. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध कम्पनी हो:-कम्पनी का नाम.....  
जो..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका  
कार्यालय..... में पंजीकरण किया गया है। जिसको आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पट्टावाले  
के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे।

### खनन पट्टे क्षेत्र का विवरण

क्र० सं०	पट्टाधारक का नाम व पता	खनन पट्टा क्षेत्र/ग्राम का नाम	तहसील	जिला	खसरा सं० व क्षेत्रफल	स्वीकृत उपखनिज की वार्षिक मात्रा (टन में)	ई० क्रमांक (एम०ओ० सं०)	विभागीय पोर्टल का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

खनन पट्टाधारक..... शपथपूर्वक बयान कराता है कि वह अपने खनन पट्टे से..... टन मात्रा स्टोन क्रेशर संचालन के प्रथम वर्ष से..... वर्ष तक देगा।

### स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का विवरण

क्र० सं०	ई० रवन्ना आई०डी० संख्या	आवेदक का नाम व पता	आवेदित क्षेत्र	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	क्षमता (प्रति घण्टा)	भण्डारण की क्षमता	
								एक समय में क्षमता (टन)	रोलिंग क्षमता (टन में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

दिनांक.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

दिनांक.....

प्रति हस्ताक्षर,

जिलाधिकारी।

**स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु  
आवेदन-पत्र का प्रारूप**

**अनुसूची-4 (अध्याय-III, बिन्दु सं0-1)**

**(03 प्रतियों में)**

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
जनपद.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम.....
- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम).....  
.....  
पता.....  
मोबाइल नं0.....  
ई-मेल आईडी0.....
- आवेदित स्थल का विवरण:-  
जनपद.....  
तहसील.....  
ग्राम.....  
खसरा संख्या.....  
क्षेत्रफल.....
- प्लान्ट की क्षमता (टन/घण्टा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है.....
- प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....
- आवेदन शुल्क का विवरण:-चालान सं0..... धनराशि..... दिनांक.....
- पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण  
धनराशि..... वर्ष..... से..... तक।
- अवधि, जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....
- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता.....



10. फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।
11. आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
12. यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति.....।
13. आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
14. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
15. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
16. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
17. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
18. अवैध खनन/मण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्धदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
19. प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं0-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालन के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
20. आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
21. प्लान्ट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति.....।
22. पूर्व से स्थापित प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण  
हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

अनुसूची-5, अध्याय-IV, बिन्दु सं0-2

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
 जनपद .....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1. मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम .....
2. मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम).....  
 पता .....
- मोबाइल नं0.....
- ई-मेल आईडी0.....
3. आवेदित स्थल का विवरण:-  
 जनपद .....
- तहसील .....
- ग्राम .....
- खसरा संख्या.....
- क्षेत्रफल.....
4. प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घण्टा)..... ।
5. प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
6. आवेदन शुल्क का विवरण:-चालान सं0..... धनराशि..... दिनांक..... ।
7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण.....  
 धनराशि..... वर्ष..... से..... तक ।

18-अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटरीज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

7-अधि जिसके लिए प्लॉट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

8-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....

9- फर्म /कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।

10-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।

11-यदि आवेदक फर्म /सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रतियाँ या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .....

12-आवेदक या आवेदक फर्म /कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .....

13- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।

14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटरीज्ड शपथ-पत्र की प्रति .....

15- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... ।

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटरीज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटरीज्ड शपथ पत्र की प्रति .....

18 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।

20- प्लॉट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं ।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर ।

**हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु  
आवेदन-पत्र का प्रारूप**

**अनुसूची-6, अध्याय-V, विन्दु सं0-क**

**(03 प्रतियों में)**

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
जनपद .....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते है कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट तथा परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1. हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट का नाम .....
2. हाट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम).....

पता .....

मोबाइल नं0.....

ई-मेल आईडी0.....

3. आवेदित स्थल का विवरण:-

जनपद .....

तहसील .....

ग्राम .....

खसरा संख्या.....

क्षेत्रफल.....

4. प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घण्टा)..... ।
5. प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
6. आवेदन शुल्क का विवरण:-चालान सं0..... धनराशि..... दिनांक..... ।
7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण.....  
धनराशि..... वर्ष..... से..... तक ।
8. अवधि जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।

9. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता..... ।
10. फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... ।
11. आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... ।
12. यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति..... ।
13. आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
14. अवैध खनन/मण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ।
15. आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
16. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..... ।
17. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
18. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..... ।
19. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..... ।
20. आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण-पत्र की प्रति..... ।
21. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... ।
22. प्लान्ट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

**पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना तथा प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा  
स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप  
अनुसूची-7, (अध्याय-VI, बिन्दु सं0-1)**

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,  
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
जनपद .....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 के अधीन पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना तथा प्लान्ट परिसर में खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम .....
2. पल्वराईजर प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम).....  
.....  
पता .....  
मोबाइल नं0.....  
ई-मेल आईडी0.....
3. आवेदित स्थल का विवरण:-  
जनपद .....  
तहसील .....  
ग्राम .....  
खसरा संख्या.....  
क्षेत्रफल.....
4. प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घण्टा)..... ।
5. प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..... ।
6. आवेदन शुल्क का विवरण:-चालान सं0.....धनराशि.....दिनांक..... ।
7. पर्यावरण एवं खनिज, सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि का विवरण .....  
धनराशि.....वर्ष.....से.....तक ।
8. अवधि जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... ।
9. यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .....

10. फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता .....।
11. आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
12. यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति.....।
13. आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
14. आवेदित क्षेत्र का साइट प्लॉन की स्वप्रमाणित प्रति.....।
15. प्लान्ट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति.....।
16. आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
17. यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
18. अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
19. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
20. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
21. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण-पत्र/नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
22. आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का मारमुक्त प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
23. आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.....।
24. प्लान्ट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराइज्ड शपथ-पत्र की प्रति.....।
25. प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ-पत्र.....।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,

अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/11-भाग 1-2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

### कार्यालयादेश

30 सितम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 2247 निलम्बन/2019-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (कम से कम तीन माह हेतु), वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	रजनीश मोहन जोशी पुत्र तारा दत्त निवासी ग्राम चंदनी तह. टनकपुर चम्पावत।	UK0320120013051 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 22.11.2022	टी.आई बंगलौर	खतरनाक गति से संचालन	28.09.2019 से 27.12.2019
2	सुरेश चन्द्र पुत्र शंकर दत्त निवासी ग्राम खाम कंदीया घामीसौन चम्पावत।	UK-0320010008477 हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 29.12.2020	टी.आई टनकपुर।	क्षमता से अधिक भार।	28.09.2019 से 27.12.2019
3	पुष्कर सिंह पुत्र जोगा सिंह ग्राम खरकोली चमडुंगरा गंगोलीहाट पिथौरागढ़।	UK-0520090007363 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT; TRANS TR वैधता 06.06.2021	टी.आई टनकपुर।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
4	हेत सिंह पुत्र भूपाल सिंह निवासी एकता नागरंजर कच्छ।	GJ-1220110032306 मोटर साइकिल विद गियर, एल एम वी (NT) वैधता 08.08.2031	टी.आई चम्पावत।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019



	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
5	योगेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद उ.प्र.।	UP-7620160008429 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 22.06.2036	टीआई चम्पावत।	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।	28.07.2019 से 27.10.2019
6	हरीश सिंह बोहरा पुत्र हयात सिंह निवासी ग्राम चौड़ी पो0 रमौला चम्पावत।	UK0620080014216 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन, (NT) TRANS TR वैधता 12.05.2022	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी	28.09.2019 से 27.12.2019
7	रोहित कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी कर्ण करायत लोहाघाट चम्पावत।	UK0320100003659 मोटरसाइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT, TRANS TR वैधता 24.03.2022	उपरोक्तानुसार।	खतरनाक तरीके से संचालन।	28.09.2019 से 27.12.2019
8	राजेन्द्र सिंह महर पुत्र श्री गंगा सिंह ग्राम दुबड़जैनल चम्पावत।	UK0320100001640 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR वैधता 08.04.2021	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	27.09.2019 से 27.12.2019
9	बलवंत सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी म.न.124 नैगरियाकलों थाना बिलासपुर रामपुर चम्पावत।	UP-22/11/005352 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, (NT) वैधता 08.05.2031	उपरोक्तानुसार।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन	28.09.2019 से 27.12.2019
10	औतार सिंह पुत्र करम सिंह निवासी 11 रसूला डांडिया नियामतगंज बिलासपुर रामपुर उ.प्र.।	UP2220120007369 मोटर साइकिल विद गियर हल्का, मोटर वाहन (NT); वैधता 23.05.2032	उपरोक्तानुसार।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन।	28.09.2019 से 27.12.2019
11	राकेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी एस 78 बिच्चिया रेलवे कालोनी शाहपुर गोरखपुर उ.प्र.	R-3852/GKP/05 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 30.08.2025	टी.आई पंचेश्वर।	क्षमता से अधिक सवारी	28.09.2019 से 27.12.2019
12	प्रकाश सिंह पुत्र कंदार सिंह निवासी ग्राम व पो. घामीसौन चम्पावत।	PB-0320080011374 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT TRANS TR वैधता 04.04.2022	प्रवर्तन दल टनकपुर।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
13	हीरा लाल पुत्र उदामी लाल निवासी डालमन सरदार सहार चुरू राजस्थान।	RJ-1020120115522 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 31.07.2020	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक भार	28.09.2019 से 27.12.2019
14	राहुल श्रीवास्तव पुत्र अनिल श्रीवास्तव निवासी. टनकपुर पो.व तह. टनकपुर चम्पावत।	UK-0320120009328 हल्का वाहन (NT) TRANS TR BSV BUS वैधता 19.02.2021	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.07.2019 से 27.10.2019
15	नुरवेसर पुत्र जान मोहम्मद निवासी म.न.28 ग्राम त्योंर फजलपुर बुलंद शहर 202396	UP-1320170022281 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन (NT); TRANS TR वैधता 11.03.2022	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक भार।	28.09.2019 से 27.12.2019
16	गिरीश चन्द्र कापड़ी पुत्र जी.डी. कापड़ी निवासी सतगढ़ जिला पिथौरागढ़	UK-0419920110787 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT) TRANS TR वैधता 01.08.2022	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
17	अमित सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी म.न. 20 ग्राम रौतेली माड़ा कर्णकरायत लोहाघाट चम्पावत।	UK-0320100003041 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR वैधता 03.04.2021	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
18	राजेश कुमार पुत्र श्री चन्द्री राम निवासी राजपुरा खूनाबोरा चम्पावत।	UK0320070001106 मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 30.06.2035	उपरोक्तानुसार।	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।	28.09.2019 से 27.12.2019
19	सुरजीत पुत्र गिरीश सिंह निवासी सुनखरी कलों नानकमत्ता जिला उ.सि. नगर।	UK-0620090002549 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 22.05.2029	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
20	किशन पाल सिंह पुत्र जोघ सिंह निवासी ग्राम झपारा जसराना फिरोजाबाद।	UP-832002000135 हल्का मोटर वाहन (NT) TRANS TR वैधता 20.07.2020	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
21	फैजल खान पुत्र बुद्धन खान निवासी कैनाल कालोनी बनबसा चंदनी चम्पावत।	UK-0320160030529 मोटर साइकिल विद गियर (NT) वैधता 24.05.2036	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
22	राम प्रकाश करयप पुत्र कुलराज किशोर निवासी 13 गुरुद्वारा बहेड़ी बरेली। 243201	UP25-20110013814 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR PSV BUS TR वैधता 24.10.2021	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक भार।	28.09.2019 से 27.12.2019
23	सुन्दर सिंह धौनी पुत्र गुमान सिंह धौनी निवासी बसकुनी पो. धौनी सिलिंग तह. लोहाघाट चम्पावत।	UK-0320110004706 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 06.08.2021	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
24	प्रदीप पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम पसियान पूर्वा सरखानपुर पो. खीरी लखीमपुर खीरी 262702	UP31201850009590 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 15.08.2038	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
25	राम मिलान पुत्र अंग्रेज लाल निवासी ग्राम व.पो. मुदर्शन थाना हरगाँव जिला सीतापुर।	UP-3420140000240 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 07.01.2034	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
26	अनीस अहमद खान पुत्र वासिल अहमद खान निवासी ग्राम अच्छनियों पो. बिहोम थाना मीरगाँव जिला लखीमपुरखीरी। 261501	UP-3120130004312 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR, वैधता 08.04.2022	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
27	सुनील पुत्र राम बहादुर निवासी नई बस्ती वार्ड न. 5 पूर्णागिरी चम्पावत।	UK-0320180003554 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन (NT) वैधता 05.12.2038	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
28	त्रिलोक सिंह पुत्र बच्ची सिंह निवासी म.न. 17 ग्राम तल्ली चनौली पो. बजवाड़ जिला अल्मोड़ा।	UK-0120170037462 मोटर साइकिल विद गियर हल्का वाहन NT; TRANS TR PSV BUS TR वैधता 22.05.2021	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
29	महेश सिंह बिष्ट पुत्र लक्ष्मण सिंह बिष्ट ग्राम गौरीहाट जिला पिथौरागढ़। 262501	UK-0520110004501 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT TRANS TR वैधता 22.09.2031	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
30	प्रेम चंद पुत्र चंदन चंद निवासी ग्राम बिल्हरी चकरपुर जिला उ.सि. नगर।	UK03 20130017829 मोटर साइकिल विद गियर हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR; वैधता 18.06.2021	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
31	राजेन्द्र घर्ती पुत्र गणेश बहादुर घर्ती निवासी जलूके अर्घकाँची नेपाल	DL No 09-10691 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR वैधता मिति 2076.07.23	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
32	रूपलाल नेपाली पुत्र हसता बहादुर नेपाली निवासी शांति नगर-4 डोंग नेपाल।	DL No 09-027682 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 2076.01.31	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
33	दन बहादुर पाल पुत्र बल बहादुर पाल निवासी पिपलाडी -8 कंचनपुर नेपाल।	DL No 12-501684 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 05.02.2021	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
34	श्रीराम चौधरी पुत्र किशुन चौधरी निवासी गबरदिया डोंग नेपाल।	DL No 07-044775 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता मिति 2075.04.23	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
35	समर मंडल पुत्र बीरेन मंडल निवासी टैगोर नगर सितारगंज उ.सि.नगर।	UK-0620120065534 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; वैधता 21.11.2032	उपरोक्तानुसार।	उपरोक्तानुसार।	28.09.2019 से 27.12.2019
36	राम सेवक पुत्र नत्थूलाल निवासी जगतपुर नियर शिशुमंदिर बरादरी बरेली।	UK-0419920012698 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; वैधता 13.08.2024	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
37	गुरजेंट सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी भगतपुर मोड़ जिला बरनाला पंजाब 148108	PB-1920010029825 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR LMV TR वैधता 09.04.2020	उपरोक्तानुसार।	बस के छत पर चार सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
38	कुलविंदर सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी ग्राम सिरौन 12 पार्ट जिला सिंगरूर।	PB-1320080096649 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता 16.11.2022	उपरोक्तानुसार।	बस के छत पर एक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
39	मीर सिंह पुत्र टोंडी लाल निवासी म.न. 273 नायक खेड़ा पो. टनकपुर जिला चम्पावत।	UK-0320070035676 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR PSVBUS TR वैधता 04.05.2020	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
40	नवीन सिंह पुत्र शेर सिंह वार्ड न. 5 नई बस्ती राजीव नगर टनकपुर चम्पावत।	UK032000 0009660 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR वैधता 20.03.2021	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
41	गोपाल दत्त भट्ट पुत्र महेश्वर दत्त भट्ट निवासी गैडवाली न. 3 टनकपुर चम्पावत।	UK03 2019 0002047 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT; वैधता 14.07.2033	उपरोक्तानुसार।	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।	28.09.2019 से 27.12.2019
42	राजेन्द्र कुमार पुत्र जोगा राम निवासी म.न. 32 ग्राम धुवा महारा कर्णकरायत तह. लोहाघाट चम्पावत।	UK-0320150023073 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR PSVBUS TR वैधता 31.08.2020	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
43	पंकज सिंह मेर पुत्र पूरन सिंह मेर ग्राम भांगादोली मोतियापाथर जिला अल्मोड़ा 263625	UK-0120190047052 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT; वैधता 29.01.2039	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
44	भगवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ऐंचोली पिथौरागढ़।	UK-0120170037462 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR वैधता 12.08.2021	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
45	गिरीश चन्द्र पुत्र शंकर दत्त निवासी ग्राम बिनवाल गौव चौड़ा मेहता चम्पावत, उत्तराखण्ड।	UK-0419980049821 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR PSVBUS TR वैधता 21.08.2020	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
46	दीपक पुत्र राम बहादुर निवासी 9 क, मेहरुबाजार टनकपुर चम्पावत।	UK-0320150025810 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR PSVBUS TR वैधता 02.01.2020	उपरोक्तानुसार।	भार वाहन में सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
47	मकदून पुत्र मुमताज निवासी म.न.217 रेलवे वार्ड टनकपुर जिला चम्पावत।	UK-0320170038117 ई रिक्शा TR वैधता 07.09.2020	उपरोक्तानुसार।	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।	28.09.2019 से 27.12.2019
48	गौरी लाल चौधरी पुत्र पूरन चौधरी निवासी पाकली-06 सुनसारी कोसी नेपाल।	DLN-010200152233 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT;TRANS TR PSVBUS TR वैधता 29.09.2022	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019
49	राजेन्द्र पुत्र राम चन्द्र निवासी म.न. 116 रेलवे वार्ड टनकपुर पो. व तह. टनकपुर चम्पावत।	UK-0320120011883 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का वाहन NT वैधता 30.08.2032	उपरोक्तानुसार।	केन्द्रीय विद्यालय के मैक्सी वाहन में 11 स्कूली बच्चे।	28.09.2019 से 27.12.2019
50	संदीप मिश्रा पुत्र सूरज मिश्रा निवासी 122/656 शास्त्री नगर कानपुर। 208005	UP78-20150035281 मोटर साइकिल विद गियर ,हल्का मोटर वाहन (NT);TRANS TR वैधता 13.02.2020	उपरोक्तानुसार।	क्षमता से अधिक सवारी।	28.09.2019 से 27.12.2019

**कार्यालयादेश**

30 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 2350 निलम्बन/2019-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1.	श्री कमान सिंह जेठी पुत्र श्री भगत सिंह जेठी, निवासी ग्राम व पो0 झनकट, खटीमा, जिला ऊ0सि0 नगर	UK0620040049830, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT, वैधता 16.08.2024	टीआई, बनबसा	नशे की हालत में वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020
2.	श्री योगेश चन्द पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी खोलिया नाकोट, पो0 किमतोली, पो0 दिगालीचौड़, चम्पावत	UK-0320130016404, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 14.01.2021	टीआई, पंचेश्वर	निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
3.	श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री गुणानंद, निवासी म0 न0-34, ग्राम व पो0 थाटा मंगोली, तह0 लोहाघाट, जिला चम्पावत	UK-0320150025483, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR, वैधता 07.10.2021	टीआई, पंचेश्वर	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
4.	श्री दीपक चन्द्र जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी, निवासी कफलांग, पो0 दुधपोखरा, जिला चम्पावत	UK-0320140021860, मोटर साइकिल विद गियर (NT), वैधता 26.10.2034	टीआई, चम्पावत	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
5.	श्री उमेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री भवान सिंह, निवासी म0 न0-51, ग्राम ढकना, पो0 व तह0 चम्पावत	UK-0320160033043, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 16.11.2036	टीआई, चम्पावत	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020
6.	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शंकर राम, निवासी चौकुनीबोरा, चम्पावत	UK-03200190001689, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 17.07.2039	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
7.	श्री मेइनुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी भवानीगंज, पिथौरागढ़	UK-04 200110143301, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT, वैधता 14.01.2021	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.06.2019 से 28.10.2019
8.	श्री सचिन महर पुत्र श्री श्याम सिंह महर, निवासी फुलारा गाँव, जिला चम्पावत	UK-03 20190000448, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 11.02.2039	उपरोक्तानुसार	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
9.	श्री जीवन चिलकोटी पुत्र श्री त्रिलोचन चिलकोटी, निवासी चिलकोट खिल पति, लोहाघाट, चम्पावत	UK-03 20180000087, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS R, वैधता 07.01.2038	टीआई, चम्पावत	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020
10.	श्री प्रवीन भट्ट पुत्र श्री गणेश प्रसाद भट्ट, निवासी सीएमओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चम्पावत	UK-0320190001857, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 19.08.2039	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
11.	श्री गौरव श्रीवास्तव पुत्र श्री के0 एल0 श्रीवास्तव, निवासी म0 नं0-75सी, एन0आई0सी0 ऑफिस, तह0 चम्पावत	UK03 20160028681, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 31.03.2035	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
12.	श्री राजेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री खीमानंद भट्ट, निवासी ग्राम चौकी, पो0 फुंगर, जिला चम्पावत	UK 0320190000881, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 28.03.2039	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
13.	श्री त्रिलोचन जोशी पुत्र श्री नित्यानंद जोशी, निवासी ग्राम किसकोट गुडियानी, जिला चम्पावत	UK-0320180003447, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; वैधता 29.11.2038	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
14.	श्री नीरज मेहरा पुत्र श्री उमेद सिंह मेहरा, निवासी ग्राम बैरख, पो0 देवीधूरा, थाना पाटी, जिला चम्पावत	UK-0320190001152, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT), वैधता 09.05.2039	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुसाई सिंह, निवासी ग्राम कार्की, पो0 व जिला चम्पावत	UK-0320180001026, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); वैधता 18.12.2021	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
16.	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री बहादुर, ग्राम बजेटी, पो0 पौण, जिला चम्पावत	UK-0520120006375, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT), वैधता 26.03.2032	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
17.	श्री मनोज मेहरा पुत्र श्री दीवान सिंह मेहरा, निवासी मुडयानी, पो0 व जिला चम्पावत	UK-0320120010756, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); वैधता 14.06.2032	उपरोक्तानुसार	बिना पंजीयन वाहन का संचालन, मीटर रीडिंग 14866 कि०मी०	24.10.2019 से 23.01.2020
18.	श्री मनोज गढ़कोटी पुत्र श्री हरीश चन्द्र गढ़कोटी, निवासी ग्राम गढ़कोट, जिला चम्पावत	UK0320090000935, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT, TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 16.01.2029	उपरोक्तानुसार	नशे की हालत में वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
19.	श्री राकेश सिंह डोंगी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह डोंगी, निवासी मल्ला खतेड़ा, जिला चम्पावत	UK03 20190001061, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 24.04.2039	टीआई, चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं	24.10.2019 से 23.01.2020
20.	श्री राम सिंह मेहरा पुत्र श्री विक्रम सिंह मेरा, निवासी धनौला विण, जिला पिथौरागढ़, चम्पावत	UK-042003179970, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS TR, वैधता 06.04.2020	उपरोक्तानुसार	नशे की हालत में वाहन का संचालन	24.10.2019 से 23.01.2020
21.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह, निवासी बच्ची नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	UK-0419950144556, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); R वैधता 30.06.2020	उपरोक्तानुसार	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं	24.10.2019 से 23.01.2020
22.	श्री नरेश सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी म0नं0-05, ग्राम स्यूतोला, पो0 मंच, तह0 व जिला चम्पावत	UK03-20030021644, हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS TR, वैधता 20.03.2021	टीआई, टनकपुर	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
23.	श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी नायकगोठ, टनकपुर, जिला चम्पावत	UK-0320150026572, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 28.08.2020	टीआई, टनकपुर	उपरोक्तानुसार	24.10.2019 से 23.01.2020
24.	श्री नाजिम पुत्र मो0 जाकिर, निवासी म0नं0-1540, उमरुखुर्द आशिक, खटीमा, ऊ0सि0 नगर	UK-0620030116751, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 21.06.2021	टीआई, बनबसा	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग नहीं	24.10.2019 से 23.01.2020
25.	श्री मनोज गढ़कोटी पुत्र श्री मथुरादत्त, निवासी ग्राम खेतीखान, तह0 पाटी, जिला चम्पावत	UK-0320130016025, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 08.07.2033	प्रवर्तन दल, टनकपुर	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
26.	श्री सुनील पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी नई बस्ती, वार्ड नं0-5, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320180003554, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 05.12.2038	उपरोक्तानुसार	पीछे से तीन सवारी लटकती पायी गई	24.10.2019 से 23.01.2020
27.	श्री मीर सिंह पुत्र श्री टोडी लाल, निवासी म0नं0-273, ग्राम नायक खेड़ा, पो0 व तह0 टनकपुर, चम्पावत	UK-0320070035676, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT), TRANS TR, वैधता 04.05.2020	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
28.	श्री केशव दत्त पुत्र श्री बंशी धर, निवासी म०न०-8, ग्राम बमनजौल, पो० चम्पावत	UK-0320090025489, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT; TRANS TR, PSV BUS TR, वैधता 25.11.2029	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
29.	श्री राम विलास पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी निबया राय भुजा, थाना मौतपुर, जिला बहराइच	UP-4020080026119, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT, TRANS TR, वैधता 23.08.2021	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक भार	24.10.2019 से 23.01.2020
30.	मोहम्मद आदिल सिद्दकी पुत्र मोहम्मद उस्मान सिद्दकी, निवासी मस्जिद, वार्ड नं०-2, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320180002778, मोटर साइकिल विद गियर, NT; TRANS TR, वैधता 23.09.2038	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
31.	श्री अतीक अहमद पुत्र श्री शरीफुल्ला, निवासी धनकुना, पो० शकौला, थाना न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत	UP-2620190007661, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	24.10.2019 से 23.01.2020
32.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुख लाल, निवासी म०न०-12, पृथ्वीपुर उर्फ छिदिया खेड़ा, तह० बिलासपुर, जिला रामपुर	UP-2220150004691, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक भार	24.10.2019 से 23.01.2020
33.	श्री पंकज श्रीवास्तव पुत्र श्री सोमपाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम गौजाजली बिचली, जिला नैनीताल	UK-0420170181136, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन NT, वैधता 02.08.2039	उपरोक्तानुसार	ओवर हाइट माल लदा	24.10.2019 से 23.01.2020

रश्मि मट्ट,  
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,  
टनकपुर, चम्पावत।



## कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

## आदेश

22 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 996/ला0/निलम्ब0/2019—विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा सन्तोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हैं:-

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1.	श्री सुभाष कटारीया पुत्र श्री विधया राम, निवासी-ब्लॉक 45/710, टी0बी0 हॉस्पिटल के पीछे, यू0पी0	यूपी-75 20140004242, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
2.	श्री दुर्वेश कुमार पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी-करवाली सम्बल, यू0पी0	यूपी-38 20180003476, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
3.	श्री मंगला नन्द पुत्र श्री नारायण दत्त, निवासी-14 बीघा, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल	यूके-1419840056029, कार, (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	09.09.2019 से 08.11.2019 तक अनर्ह
4.	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कबूल सिंह, निवासी-ग्रात बरकोट, उपली रमोली, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420050032746, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
5.	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बाग सिंह, निवासी-ग्राम कण्डियालागाँव, थाना लम्बगाँव	यूके-1420060040172, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
6.	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री सरूप सिंह, निवासी-जुनाना, थाना घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल	यूके-1420100017771, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक माल भरना व ओवर स्पीड	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
7.	श्री रायचन्द्र सिंह पुत्र श्री चान्द्र सिंह, निवासी-ग्राम नवाघर पट्टी, सारज्यूला, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420030043277, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
8.	श्री दाताराम गोदियाल पुत्र श्री देवदत्त गोदियाल, निवासी-गवाणा पट्टी, टिहरी गढ़वाल	यूके-कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
9.	श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्रात डाबरी पट्टी जुआ, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420050024437, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
10.	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी-स्वर्ण आश्रम, मुनि-की-रेती, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	यूके-1419960046162, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
11.	श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह, निवासी-ग्रात सांकरी कमानन्द, मल्लिधायणा, जनपद टिहरी गढ़वाल	यूके-142007001881, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
12.	श्री दीपक सिंह पुत्र श्री हंस राज सिंह, निवासी-म०न० 176, खडकमाफी, ऋषिकेश	यूके-1420180000361, कार, मोटरसाइकिल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
13.	श्री अतर सिंह पुत्र श्री मोर सिंह, निवासी-ग्राम मजखेत, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	यूके-1920170006809, कार, मोटर साइकिल, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
14.	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, निवासी-ग्राम बडोन, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420030044745, मोटर साइकिल, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
15.	श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री सरस्वती प्रसाद, निवासी-410, दुधपानी अमित ग्राम बापू ग्राम, ऋषिकेश, देहरादून	यूके-1420100016760, कार, मोटर साइकिल, परिवहन वाहन	स०स०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
16.	श्री अशोकभाई एस अदगामा पुत्र श्री सुरेशभाई अदगामा, निवासी-चक्रगढ़ रोड़ अमरेली	जी.जे-1420050014886, कार, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०स०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
17.	श्री अकाश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी-बालापुर, पोस्ट अखेडा, बिजनौर, यू०पी०	यू०पी-20 20180012543, कार, परिवहन वाहन	स०स०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
18.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दयाराम, निवासी-ए-3/1237, ए-ब्लॉक, साउथ, गाजियाबाद	डी0एल0 520120192215, कार, मोटर साइकिल, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
19.	श्री रामजी लाल पुत्र श्री जवाहर सिंह, निवासी-खुशहालपुर, जलेसर, कुन्जालपुर	यू.पी-62 20030066879, कार, मोटर साइकिल, मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

### आदेश

22 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 997/ला0/निलम्ब0/2019-विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा सन्तोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हैं:-

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1.	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री रौशन लाल, निवासी-61, शान्ति नगर, ऋषिकेश	यूके-1420080031769, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
2.	श्री राजेन्द्र सिंह राना पुत्र श्री चाहचु सिंह, निवासी-एस 11-बी, शास्त्री नगर, गाजियाबाद	यूपी-1420110014613, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
3.	श्री राहुल कुमार पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह, निवासी-हाउस नं०-11, अलिपुर, गढ़मुखतेदर, हापुड़	यूपी-37 20140000192, कार, मोटर साइकिल, ट्रांस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
4.	मौ० नाकी पुत्र श्री नजर हुसैन, निवासी-ग्राम सुचापुर, पोस्ट-धामपुर, बिजनौर	यूपी-20 19970008407, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
5.	श्री विजय कश्यप पुत्र श्री राम किशन, निवासी-90, प्रमु कॉलोनी, पिटतुवाला, देहरादून	यूए-0720100129189, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
6.	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी-चौहान स्वीट शॉप, बुरारी न्यू टिहरी, टिहरी गढ़वाल	यूके-0920120006830, कार, मोटर साइकिल ट्रॉस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
7.	श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री भुरे सिंह, निवासी-हाउस नं०-128, विला फतेहपुर, पोस्ट मेहुआ हसनगंज, राजपुरा सम्बल, यूपी	यूपी-38 20150001523, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
8.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री सुखराम पाल, निवासी-गली नं०-2, हनुमान मन्दिर, वीरभद्र, ऋषिकेश	यूपी-12 20070009935, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
9.	श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, निवासी-रूपा फार्म, गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके-1419980029879, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
10.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रूलाहा राम, निवासी-गली नं०-29, अमित ग्राम, गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके-1419880004511, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
11.	श्री जय कान्त यादव पुत्र श्री राम सुख यादव, निवासी-गली नं०-01, गीता नगर, वीरभद्र, ऋषिकेश	यूके-1420160095413, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
12.	श्री पटेल मनीषभाई पुत्र श्री बकुलभाई, निवासी-25/26, वैष्णो प्लाजा काम्पलेक्स, ऋषिकेश	यूके-1420190000589, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स०सं०प०अधि०, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
13.	श्री जय किशन पटेल पुत्र श्री लाल जी पटेल, निवासी-इरादतगंज, रीवा रोड, घुरपुर, इलाहाबाद	यूपी-70 20060004663, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
14.	श्री सचिन रावत पुत्र श्री मंगल सिंह रावत, निवासी-रोड नं०-5, बरोनावाना, ऋषिकेश	यूके-1420180003614, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	चण्डीगढ़, पुलिस	ओवर स्पीड	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
15.	श्री ओमप्रकाश नौटियाल पुत्र श्री बच्चिराम नौटियाल, निवासी-ढालवाला, ऋषिकेश, देहरादून	यूके-140040002229, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब के नशे में खतरनाक संचालन	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
16.	श्री धर्मेंश माथुर पुत्र श्री एस0 एस0 माथुर, निवासी-ए-2164, आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश, देहरादून	यूके-141997005810, कार, मोटर साइकिल वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
17.	श्री शुभम, श्री ऋषिपाल, निवासी-204, शान्ति नगर, ऋषिकेश	यूके-1420150082559, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
18.	श्री आशा पुन, श्री शिव बहादुर पुन, निवासी-ग्राम, पोस्ट- चिदारवाला, ऋषिकेश	यूके-1420100011238, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल, फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
19.	श्री अभिलाष पुत्र श्री राघेश्याम शर्मा, निवासी-64/161, सर्वहारा नगर, एम0बी0, जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश	यूके-1420130065003, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब के नशे में खतरनाक संचालन	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
20.	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह कण्डारी, निवासी-568, ढालवाला, मुनि-की-रेती, ऋषिकेश	यूके-1420090021311, कार, मोटर साइकिल, ट्रांस, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	ओवरलोड, खतरनाक संचालन	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
21.	श्री अजय भट्ट पुत्र श्री हर्शमणि भट्ट, निवासी-गजा रोड-249201	यूके-1420060039573, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब के नशे में गाड़ी चलाना	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
22.	श्री कपिलदेव प्रसाद पुत्र श्री राम शरण दुबे, निवासी-04, फील्ड होस्टल, टी0एच0डी0सी0, प्रगति पुरम, ऋषिकेश	यूके-1420100014333, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, गौतमबुद्ध नगर	ओवर स्पीड	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
23.	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, निवासी-ग्राम मैहरगाव, पोस्ट मायापुर, थाना व जिला चमोली	यूके-1419990046805, कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चमोली	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
24	श्री मुकेश भण्डारी पुत्र श्री जबर सिंह, निवासी-गढ़वाल ट्रक और एसोशियेशन, ढालवाला रोड, ऋषिकेश	यूके-1420100018816, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब के नशे में गाड़ी चलाना	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
25.	श्री उमेश सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, निवासी-ग्राम भेन्ता, पोस्ट रनौत रमोली, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420070053394, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	शराब के नशे में गाड़ी चलाना	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
26.	श्री बचन लाल पुत्र स्व० कुन्दल लाल, निवासी-बीरपुर डुण्डा, थाना कोतवाली, जनपद उत्तरकाशी	यूके-1420000055542, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	शराब के नशे में गाड़ी चलाना	30.09.2019 से 29.03.2020 तक अनर्ह
27.	श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निवासी-कुमाली, पोस्ट जाजल, थाना नरेन्द्रनगर	यूके-1420020033650, कार, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	ओवर लोड, खतरनाक संचालन	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह
28.	श्री गोपाल पाल, श्री अमरीश पाल, निवासी-मायाकुण्ड, ऋषिकेश	यूके-1420130060363, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन वाहन	स0सं0प0अधि0, ऋषिकेश	मोबाइल फोन का प्रयोग	30.09.2019 से 29.12.2019 तक अनर्ह

**आदेश**

15 नवम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 1069/निल0/ला0/2019—माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा श्री किशोर सिंह चौहान पुत्र श्री झुमकी सिंह, निवासी-433, दूधपानी अभित ग्राम, ऋषिकेश, देहरादून के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK14-20120039502 को 06 माह तक निरहित (Disqualify) करने हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है। उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल के आदेशों के अनुपालन में श्री किशोर सिंह चौहान पुत्र श्री झुमकी सिंह, निवासी-433, दूधपानी अभित ग्राम, ऋषिकेश, देहरादून के लाइसेन्स संख्या UK14-20120039502 को दिनांक 17.10.2019 से 16.04.2020 तक निरहित (Disqualify) किया जाता है।

डा0 अनीता चमोला,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

ऋषिकेश।

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग****आदेश**

22 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 821/प्रवर्तन/लाइसेंस/2019—सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0-पार्ट-3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं, डॉ० संगीता मद्दट (प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती हूँ:-

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पंकज सिंह पुत्र श्री प्रदीप सिंह, ग्राम मलनौन, पो0 जाखणी, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-1320150007879, VALIDITY (NT), 29.06.2035	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019
2.	श्री सुबोध सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, 33, मडोला, रुद्रप्रयाग, पिन-246171	UK-1320180002013, VALIDITY (NT), 11.11.2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019
3.	श्री धन्वजय पुत्र श्री उमा दत्त, ग्राम पुनाड, जनपद रुद्रप्रयाग, पिन-246171	UK-1320130004723, VALIDITY (NT), 08.10.2033	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	S.P., RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019
4.	श्री कार्तिक विश्वास पुत्र श्री गोजन विश्वास, ग्राम पदमा पुखरी, पो0 गोसाईगाँव, जनपद कोकराझर (असम)	75642/KOJ/NT, VALIDITY (NT), 03.05.2020	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	S.P., RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019
5.	श्री अनूप सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम सिंघाटा, पो0 पाठालीदार, कोटी, रुद्रप्रयाग, पिन-246421	UK-1320100000179, VALIDITY (NT), 05.08.2030, VALIDITY (T), 19.03.2021	खतरनाक संचालन	S.P., TEHRI GARHWAL	22.11.2019 से 21.02.2019

1	2	3	4	5	6
6.	श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री चमन सिंह, ग्राम सिकरोडा, पो० मण्डावली, तहसील नजीबाबाद, बिजनौर, पिन-246763	UP2020140022857, VALIDITY (NT), 16.11.2034, VALIDITY (T), 02.08.2022	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019
7.	श्री हरीश राणा पुत्र श्री भगवान सिंह राणा, ग्राम गीद, पो० तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, पिन-246475	UK-1320130003761, VALIDITY (NT), 10.03.2033	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	22.11.2019 से 21.02.2019

डॉ० संगीता मट्ट,

प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

27 नवम्बर, 2019 ई०

संख्या 831/प्रवर्तन/लाइसेंस/2019—सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस० पार्ट-3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस०-पार्ट-3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं, मोहित कुमार कोठारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री संजय सिंह पुत्र श्री बृज मोहन सिंह, मकान सं०-01, ग्राम मडोली, पो० स्वीत श्रीनगर, गढ़वाल, पिन-246174	UK-1420110030933, VALIDITY (NT), 19.08.2031	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	27.11.2019 से 26.02.2019
2.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री चंद्र पाल, ग्राम व पो० बाबरी डी-शामली, उ०प्र०, पिन-251305	UP19 20150007121, VALIDITY (T), 03.07.2022, VALIDITY (NT), 18.06.2035	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	27.11.2019 से 26.02.2019
3.	श्री सुभाष चंद्रा सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, ग्राम खटयाना, पो० सतेराखाल, रुद्रप्रयाग, पिन-246171	UK-1320130003977, VALIDITY (NT), 19.04.2033	ओवरस्पीड	S.P., TEHRI GARHWAL	27.11.2019 से 26.02.2019
4.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनवर सिंह, ग्राम बैनजी, पो० काण्डई, दशजुला, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-1320150008414, VALIDITY (T), 15.02.2020, VALIDITY (NT), 30.09.2035	बिना सीट बेल्ट वाहन का संचालन	S.P., TEHRI GARHWAL	27.11.2019 से 26.02.2019

मोहित कुमार कोठारी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

०एस०यू० (आर०ई०) 03 हिन्दी गजट/11-भाग 1-क-2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

रुद्रप्रयाग।

एक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।





# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक : 07 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 76/उत्तराखण्ड-लो0स0/2012-यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन मार्च, 2019 के लिये जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है:-

### सारणी

क्र० सं०	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० एवम् नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण-निर्वाचन-2019	01-टिहरी गढ़वाल	श्री जय प्रकाश उपाध्याय, कण्डोली, राजपुर रोड, देहरादून	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

1	2	3	4	5
2.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन-2019	01-टिहरी गढ़वाल	श्रीमती मधु शाह, टी0एच0 डी0सी0 कॉलोनी, पो0-पटेल नगर, देहरादून	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
3.	यथा	यथा	श्री गौतम सिंह बिष्ट, 510, छिंदरवाला, रायवाला, देहरादून	यथा
4.	यथा	02-गढ़वाल	श्री विनोद प्रसाद नौटियाल, 105, ग्राम-मेहुवाला माफी आंशिक, पो0-मेहुवाला, तह0-देहरादून, जिला देहरादून	यथा
5.	यथा	यथा	श्री आनंदमणी दत्त जोशी, ग्राम-सिरोसेंण (मठोली), पो0ओ0-सिमली, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली	यथा
6.	यथा	यथा	श्री रामेन्द्र सिंह मंडारी, मकान सं0 173, गणेश बाजार, श्री नगर, पौड़ी गढ़वाल	यथा
7.	यथा	03-अल्मोड़ा (अ0जा0)	श्री सुन्दर धौनी, ग्राम-मण्डलसेरा, पो0-मण्डलसेरा, तहसील एवं जिला-बागेश्वर	यथा

आदेश से,

राहुल शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER7<sup>th</sup> January, 2020

**No. 76/ECI/UKD-HP/2020**--Whereas, the Election Commission of India satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the House of People, 2019 as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name, have failed to lodge account of their election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, hereby, declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the House of Person- 2019	01-Tehri-Garhwal	Shri Jai Prakash Upadhyay, Kandoli, Rajpur Road, Dehradun	Failure to lodge the accounts of election expenses
2.	-do-	-do-	Smt. Madhu Shan, THDC Colony, Post-Patelnagar, Dehradun	-do-
3.	-do-	-do-	Shri Gautam Singh Bist, 510, Chhiddarwala, Raiwala, Dehradun	-do-
4.	-do-	02-Garhwal	Shri Vinod Prasad Notiyal, 105, Vill-Mehuwala, Mafi Anshik, Post-Mehuwala, Tehsil-Dehradun, Distt.-Dehradun	-do-
5.	-do-	-do-	Sh. Anandmani Dutt Joshi, Vill.-Sirosain (Matholi), Post-Simli, Tehsil-Karnaprayag, Distt.-Chamoli	-do-
6.	-do-	-do-	Sh. Ramendra Singh Bhandari, House No. 173, Ganesh Bazar, Srinagar, Pauri Garhwal	-do-
7.	-do-	03-Almora (SC)	Shri Sunder Dhoni, Village-Mandalsera, Post-Mandalsera, Tehsil & Distt.-Bagheswar	-do-

By Order,

RAHUL SHARMA,

Secretary,

Election Commission of India.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 28, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

19 अक्टूबर, 2019 ई0

पत्रांक 133/उपविधि/न0प0 सतपुली/2019-20-नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 की धारा-298(2) लिस्ट जे0 (डी0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, सतपुली के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनाई गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उनसे आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। अतः समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। बादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं होगा।

### ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2019

#### 1. परिभाषाएँ:-

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2019 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।
- (2) निकाय-निकाय का तात्पर्य, नगर पंचायत सतपुली से हैं।
- (3) बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा से है।
- (4) अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश-2002 से है।
- (5) अध्यक्ष-अध्यक्ष का तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (6) अधिशासी अधिकारी-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली से हैं।
- (7) पंजीकरण-पंजीकरण का तात्पर्य, नगर पंचायत, सतपुली द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से हैं।

- (8) ठेकेदार-ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, सतपुली में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो।
- (9) श्रेणी-श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से हैं।

## 2. पंजीकरण की प्रक्रिया:-

नगर पंचायत के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:-

- (1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत, सतपुली सीमान्तर्गत जनपद-पौड़ी गढ़वाल में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित देनी होगी।
- (2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।
- (3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है):-
 

अ-प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
ब-द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स-तृतीय श्रेणी के लिए	02.00 लाख
- (4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 02.00 करोड़ के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाईबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण-पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
- (5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।
- (6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (7) प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

## 3. जमानत:-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थाई जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन-पत्र के साथ देनी होगी:-

अ-प्रथम श्रेणी के लिए	60,000.00
ब-द्वितीय श्रेणी के लिए	45,000.00
स-तृतीय श्रेणी के लिए	30,000.00

## 4. पंजीकरण शुल्क:-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत, सतपुली के कोष में जमा करनी होगी:-

अ-प्रथम श्रेणी के लिए	20,000.00
ब-द्वितीय श्रेणी के लिए	10,000.00
स-तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

**5- पंजीकरण की अवधि:-**

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रु0 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

**6- नवीनीकरण की प्रक्रिया:-**

ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा:-

- (1) नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसक पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रु0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।
- (2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रु0 500.00 होगा, नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।
- (3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार पंचायत कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत क अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी:-
 

अ- प्रथम श्रेणी के लिए	3000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए	2000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए	1000.00
- (4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।
- (5) नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण-पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण-पत्र/ नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ-पत्र देना होगा।

**7- निर्माण के सम्पादन की सीमा:-**

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा:-

- (1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
- (2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
- (3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

**8- निविदा प्रपत्र की लागत:-**

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा:-

कार्यों की लागत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
अ- 50,000.00 तक	500.00 + GST
ब- 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	1000.00 + GST
स- 1,00,000.00 से 5,00,000.00 तक	1500.00 + GST
द- 5,00,000.00 से 10,00,000.00 तक	2000.00+ GST
य- 10,00,000.00 से 15,00,000.00 तक	3000.00+ GST
र- 15,00,000.00 से 20,00,000.00 तक	4000.00 + GST
20,00,000.00 रुपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रुपये पर 10.00 रुपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।	

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा।

#### 9- निविदा स्वीकार करने का अधिकार:-

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा ऑकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

#### 10-धरोहर राशि:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम 2008 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

#### 11- ठेकेदार का भुगतान:-

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 12 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

#### 12-कार्य पूर्ण करने की अवधि:-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व अचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड

**13-पंजीकरण का निरस्तीकरण:-**

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा।

**14-जमानत जब्त करने का अधिकार:-**

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम-13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

**सुशील बहुगुणा,**  
अधिशासी अधिकारी।

**अन्जना वर्मा,**  
अध्यक्ष।